



मई 2021

## निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को सर्वोपरि रखना

पिछली गर्मियों में, Ontario सरकार ने Ajax Pickering Hospital की साइट पर एक नया दीर्घकालिक देखभाल होम बनाने के लिए Lakeridge Health और Infrastructure Ontario के साथ एक सहयोगी साझेदारी की घोषणा की थी। Durham क्षेत्र के लिए 320 नए बेड लाने के अलावा, होम की योजना में उन्नतिशील संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण (enhanced infection prevention and control, IPAC) उपाय और ऐसा आधुनिक डिजाइन शामिल है जो निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को सर्वोपरि रखता है।

उदाहरण के लिए, होम की निर्माण-योजना में सुरक्षित और प्राकृतिक रूप से रुचिकर बनाए गए प्रांगण और सह-निवासियों और परिवारजनों से मिलने-जुलने के लिए बहुत से सामुदायिक स्थल शामिल हैं। रोशनी और धूप से भरे स्थलों को बनाने के लिए एक डेलाइट (Daylight) अध्ययन किया गया, चौड़े हॉलवे निवासियों को आने-जाने में सहयोग देंगे और निवासियों के व्यक्तिगत और अर्द्ध-व्यक्तिगत कमरे उनके लिए एक आरामदायक वातावरण बनाते हैं।

निवासियों, परिवारों और स्टाफ के लिए यथासंभव सबसे सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए IPAC के सर्वोत्तम अभ्यास मानकों को होम के डिजाइन का केन्द्रबिन्दु बनाया गया है।

होम को 16-बेड के 'समूहों' में बांटा गया है, जिसमें हर समूह का अपना खाने का स्थान, सन रूम (sun room), लाउन्ज और गतिविधि स्थल है। ये समूह अधिक आरामदायक, घर-जैसा वातावरण बनाते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर, किसी प्रकोप जैसे परिस्थिति होने पर, इनके द्वारा निवासियों को वर्गीकृत भी किया जा सकता है। निवासियों के रहने के स्थान से अलग, स्टाफ की "साफ़" यातायात मार्गों तक विशेष पहुँच होगी, जिससे वे धुलने वाले कपड़ों और अन्य प्रयोग की गई वस्तुओं को खाने की आने वाली डिलीवरी या साफ़ कपड़ों जैसी चीजों से अलग रख सकें।

Ajax Pickering Hospital और पूरा Lakeridge Health सिस्टम भी होम और उसके स्टाफ की मेडिकल और संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण विशेषज्ञता के साथ सहयोग देगा।

नया होम अंततः निवासियों और उनके परिवारों के लिए एक आरामदायक और सुरक्षित होम बनाने और स्टाफ के लिए एक समृद्ध कार्यस्थल बनाने के लिए सबसे आधुनिकतम सोच, डिजाइन और कार्य-प्रणाली का प्रतीक है।



## निर्माण की पटरी प्रगति पटरी पर है

नए दीर्घ-कालिक देखभाल होम का निर्माण बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। दूसरी और तीसरी मंज़िल दोनों का ही निर्माण इस महीने के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है, और 7-मंज़िला एलेवेटर कोर को, बाकी बची हुई निर्माण परियोजना के दौरान सामान की एलेवेटर द्वारा डिलीवरी करने के लिए मुकम्मल और तैयार कर दिया गया है।

अगले कुछ हफ्तों और महीनों तक, PCL की टीम द्वारा स्टील की दीवारों और फर्श के पैनल लगाने और चौथी और पाँचवी मंज़िल के काम तक पहुंचते हुए, काम काफी हद तक एक सा ही लगेगा और सुनाई देगा। इसके अलावा, पहले से बने हुए निवासियों के वॉशरूम पाइंस कार्यस्थल पर डिलीवर होने और लगाए जाने जारी है। निर्माण की पूरी अवधि के दौरान और वर्तमान में जारी स्टे-एट-होम आदेश के दौरान, कार्यस्थल पर कार्यरत कर्मचारियों, उनके परिवारों, और हमारे समुदाय को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए COVID-19 के सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं।



मई 8, 2021 तक पूरा निर्मित एलेवेटर कोर और 32 वॉशरूम पाइंस के साथ आधी बनी हुई दूसरी मंज़िल

## होम के नंबरों पर एक नज़र



पूरे निर्माण के दौरान, कार्यस्थल पर 2,605 क्यूबिक मीटर कंक्रीट रखा जाएगा। यह इतना कंक्रीट है कि इससे 3.6 फुटबॉल फ़ील्ड बनाए जा सकते हैं।



एलेवेटर कोर 7 मंज़िल और 88 फुट से थोड़ा और ऊंचा है। इसकी ऊंचाई Leaning Tower of Pisa की ऊंचाई की आधी है।

## निर्माण की पार्किंग के बारे में ताज़ा खबर

निर्माण-स्थल पर काम करने वालों की संख्या लगातार बढ़ने की वजह से कास्थल के आस-पास की पार्किंग क्षमता काफी कम पड़ रही है। हम एक योजना पर काम कर रहे हैं, जिस से निर्माण कर्मचारियों को जून की शुरुआत से Barr Road और Monarch Avenue के कोने के निकटवर्ती विकास स्थल पर अपने निजी वाहन पार्क करने की सुविधा मिल जाएगी। इस नए पार्किंग स्थल से कार्यस्थल के बिल्कुल करीबी रिहायशी रास्ते खाली हो जाएंगे; हालांकि कर्मचारियों के कार्यस्थल तक चल के आने और जाने की वजह से, हम साइडवॉक और Clements Woodlot ट्रेल पर चलने वालों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं।

लंबे समय से स्थानीय परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसाय ने उदारतापूर्वक Lakeridge Health को यह ज़मीन होम के 2022 की शुरुआत में पूरा हो जाने तक के लिए दान दी है। हमारे सभी पड़ोसियों की उदारता इस निर्माण को मूर्त रूप देने में बहुत काम आई है और हम उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने अब तक के निर्माण में हमें सहयोग दिया है।



## हम से संपर्क करें

क्या आप होम की प्रगति के बारे में ताज़ा खबरें पाना चाहते हैं? अपना नाम और ईमेल अइसे [AjaxLTC@lh.ca](mailto:AjaxLTC@lh.ca) को ईमेल कर के हमारी ईमेल लिस्ट में शामिल हों। आपको सारी जानकारी और ताज़ा खबरें सीधे अपने ईमेल इनबॉक्स में मिल जाएंगी।

यदि इस दौरान आपके कोई प्रश्न हैं या आप अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कृपया हमारी वेबसाइट [lakeridgehealth.on.ca](http://lakeridgehealth.on.ca) पर जाएं, 905-576-8711 ext. 34167 पर कॉल करें या [AjaxLTC@lh.ca](mailto:AjaxLTC@lh.ca) पर ईमेल करें। आप हमें Twitter और Facebook पर फाइनड और फॉलो भी कर सकते हैं।